

August 13, 2020

**BSE Limited** Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Scrip code: 512529

Symbol: SEQUENT

Dear Sir / Madam,

Sub: Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') on the Open Offer made to the Shareholders of SeQuent Scientific Limited (the 'Company') by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

With reference to the above-mentioned subject, please find enclosed copy of recommendation of IDC on the Open Offer made to the Shareholders of the Company by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

The recommendation has been published in the following newspapers on August 13, 2020:

Newspaper	Language	Editions
Financial Express	English All editions	
Jansatta	Hindi	All editions
		(except Ahmedabad edition due to
		holiday, which will be published on
		August 14, 2020)
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai edition

We wish to take the above on record and have attached copy of the newspaper publications of IDC recommendations.

Thanking you, Yours faithfully, For **SeQuent Scientific Limited** 

Krunal Shah Company Secretary & Compliance Officer Encl.: A/a



**SeQuent Scientific Limited** 

Registered Office: 301, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Area, Thane(W}, Mumbai - 400604, India Tel: +9122 4111777 I CIN: L99999MH1985PLC036685 http://www.sequent.in





#

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('**IDC**') on the Open Offer to the Shareholders of SeQuent Scientific Limited (the '**Company**') by CA Harbor Investments under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ('**SEBI SAST Regulations**')

1.	Date	August 12, 2020
2.	Name of the Target Company	SeQuent Scientific Limited
	(TC)	Registered Office: 301, 3 <sup>rd</sup> Floor, Dosti Pinnacle, Plot
		No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane-
		400604, Maharashtra, India
3.	Details of the Offer pertaining	Open Offer made by CA Harbor Investments
	to TC	("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited
		("PAC"), in its capacity as a person acting in concert
		with the Acquirer ( <b>"Open Offer</b> " or <b>"Offer</b> ") to acquire
		upto 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred
		Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine)
		fully paid up equity shares of face value of INR 2
		(Indian Rupees Two) each (" <b>Equity Shares</b> ") representing 26% (twenty six percent) of the
		Expanded Voting Share Capital of the TC at a price of
		INR 86/- per share from the Public Shareholders.
4.	Name(s) of the acquirer and	Acquirers
	PAC with the acquirer	
		CA Harbor Investments
		Registered Office: GFin Corporate Services Limited,
		Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene
		72201, Mauritius;
		Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24
		PAC
		CAP V Mauritius Limited
		Registered Office: GFin Corporate Services Limited,
		Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene
		72201, Mauritius;
		Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24
5.	Name of the Manager to the	Nomura Financial Advisory and Securities (India)
	Offer	Private Limited
		Address: Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar
		Estate, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400
		018, Maharashtra, India
		Tel: +91 22 4037 4037
		Fax: +91 22 4037 4111
		Email: <a href="mailto:sequentscientificopenoffer@nomura.com">sequentscientificopenoffer@nomura.com</a>

**SeQuent Scientific Limited** 

Registered Office: 301, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Area, Thane (W}, Mumbai - 400604, India Tel: +9122 4111777 I CIN: L99999MH1985PLC036685 http://www.sequent.in





		Contact Person: Vishal Kanjani/Prithvi Garg
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Dr. Gopakumar G Nair, Chairperson Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam, Member
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)	All the IDC Members are Independent and Non- Executive Directors of the TC Shareholding of IDC Members in the TC:
		Dr. Gopakumar G Nair – 1,16,740 equity shares Dr. Kausalya Santhanam – NIL
		The IDCs have no relationship with the Company other than through their position of IDs and by way of the shares held by them as above in the TC.
8.	Trading in the Equity shares / other securities of the TC by IDC Members	None of the Members of IDC have traded in any of the Equity Shares/securities of the TC during the period of 12 months prior to the Public Announcement dated May 8, 2020 and till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)	The IDC Members do not hold any equity shares or other securities of the Acquirer and/or PAC and have no contract/relationship with Acquirer and/or PAC and/or their respective Directors.
10.	Trading in the Equity shares / other securities of the acquirer by IDC Members	None
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the Offer is fair and reasonable	The IDC is of the view that the Open Offer is fair and reasonable, as it is in accordance with the provisions of SEBI SAST Regulations.
		However, the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.
12.	Summary of reasons for recommendation	Based on the review of the Public Announcement (PA) dated May 8, 2020, the Detailed Public Statement (DPS) dated May 14, 2020, the Draft Letter of Offer (DLOF) dated May 22, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020 and Second Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 86/- offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the SEBI SAST Regulations and prima facie appear to be justified.

SeQuent Scientific Limited

Registered Office: 301, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Area, Thane (W}, Mumbai - 400604, India Tel: +9122 4111777 I CIN: L99999MH1985PLC036685 http://www.sequent.in





13.	Details of Independent	None
	Advisors, if any	
14.	Any other matter(s) to be highlighted	None

"To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI SAST Regulations."

For and behalf of The Committee of Independent Directors of SeQuent Scientific Limited

lalleurunne



Dr. Gopakumar G. Nair Chairperson - Committee of Independent Directors

Place: Thane Date: August 12, 2020

**SeQuent Scientific Limited** 

5

previous

vear

ended

(31/03/2020)

151.64

0.690

0.690

1,821.34


----

0.004

0.004

Sd/

# **FINANCIAL EXPRESS**



Company

- Members holding share(s) in physical mode are requested to send the following details for registration of their email id- Folio No., name of shareholder, mobile no., email id and self-attested copy of PAN and Aadhar card by email to the Company at secretarial.department@tilindia.com.
- ii) Members holding share(s) in electronic mode are requested to register/update their email ids with their respective Depository Participants (DPs) for receiving all communications from the Company electronically.

### Manner of casting vote through e-voting

- Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system i.e., e-voting from a place other than the venue of AGM as well as e-voting during the proceedings of AGM.
- ii) The login credential for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through email after they successfully register their email addresses in the manner provided above.
- iii) Detail instructions to Members for casting vote through remote e-voting shall be given in the Notice of the AGM

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

	For TIL Limited
Place : Kolkata	Sekhar Bhattacharjee
Date : 12.08.2020	Company Secretary

# Proven Ability In Life Sciences **SeQuent Scientific Limited**

### CIN : L999999MH1985PLC036685

Registered Office : 301, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra, India. Tel.: +91 22 41114777, Email ID: investorrelations@sequent.in, Website: www.sequent.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") on the Open Offer to the Shareholders of SeQuent Scientific Limited (the 'Company') by CA Harbor Investments under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ('SEBI SAST Regulations')

guiations, 2011 (SEBISAST Regulations)	1911 IN 19142 WARTER		
Date	August 12, 2020	_	(32.9)
Name of the Target Company (TC)	SeQuent Scientific Limited Registered Office: 301, 3 <sup>e</sup> Floor, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane-400604, Maharashtra, India		S
Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer made by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer ("Open Offer" or "Offer") to acquire upto 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares") representing 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital of the TC at a price of INR 86/- per share from the Public Shareholders.	Sr	Regd. Office: LGF, Tel. No.: 011-23414946, Fax No.: 0 EXTRACT OF STANDALONE & CONS PARTICULARS
Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirers CA Harbor Investments	No	
	42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius; Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24 PAC CAP V Mauritius Limited	1 2	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period
	42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius; Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24	4	before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period
Name of the Manager to the Offer	Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Address: Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India Tel: +91 22 4037 4037 Fax: +91 22 4037 4111 Email:sequentscientificopenoffer@nomura.com Contact Person: Vishal Kanjani/Prithvi Garg	5	after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]
Members of the Committee of Independent Directors	Dr. Gopakumar G Nair, Chairperson Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam, Member	7	Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)
IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)	All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC Shareholding of IDC Members in the TC: Dr. Gopakumar G Nair – 1,16,740 equity shares Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam – NIL The IDCs have no relationship with the Company other than through their position of IDs and by way of the shares held by them as above in the TC.		a) Basic (not annualised) : b) Diluted (not annualised) :
Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the Members of IDC have traded in any of the Equity Shares/securities of the TC during the period of 12 months prior to the Public Announcement dated May 8, 2020 and till the date of this recommendation.	2.	www.nseindia.com and also on the Con Figures for the quarter ended 31 <sup>st</sup> March, and the published unaudited figures for the
IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship)	The IDC Members do not hold any equity shares or other securities of the Acquirer and/or PAC and have no contract/relationship with Acquirer and/or PAC and/or their respective Directors.	4.	The Company's operations comprise of o given in respect of segment. There was a fire accident in one of the p impacted the building, stocks, plant & ma
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None	1	was made with the Insurance Company. into additional costs which were include years. An amount of ₹ 5,067 Lakhs has
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the view that the Open Offer is fair and reasonable, as it is in accordance with the provisions of the SEBI SAST Regulations. However, the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.	5.	accordingly ₹ 4,129 Lakhs, over and abo as on 31 <sup>st</sup> March, 2019, has been disclose and year ended 31 <sup>st</sup> March, 2020 The Company's operations and financia
Summary of reasons for recommendation	Based on the review of the Public Announcement (PA) dated May 8, 2020, the Detailed Public Statement (DPS) dated May 14, 2020, the Draft Letter of Offer (DLOF) dated May 22, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020 and Second Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 86/- offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the SEBI SAST Regulations and prima facie appear to be justified.		outbreak of COVID-19 pandemic and the over esuspended for part of the quarter and not comparable with those for the previor. The Company has considered the possi results for the quarter ended June 30, 20 considered internal and external information further adjustments are required to be madate of approval of these interim financial constant.
Details of Independent Advisors, if any	None		economic conditions. In financial year 2019-20, the tax laws we
Any other matter(s) to be highlighted	None		("New Rate") effective 1st April, 2019, wit
terial respect, true and correct and not misleadin	g, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the SEBI SAST Regulations. For and behalf of The Committee of Independent Directors of SeQuent Scientific Limited	7.	Based on the assessment of future tax surcharge and cess until the Minimum A The Company re-measured its net defer The consolidated financial results include upto 1 <sup>st</sup> August, 2019 (date of liquidation)
	-/Sd Dr. Gopakumar G. Nair Chairperson - Committee of Independent Directors	Plac	e : New Delhi : 12ª August 2020
	Date         Name of the Target Company (TC)         Details of the Offer pertaining to TC         Details of the Offer pertaining to TC         Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer         Name of the Manager to the Offer         Members of the Committee of Independent Directors         IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)         Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members         IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)         Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members         IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)         Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members         Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable         Summary of reasons for recommendation         Details of Independent Advisors, if any         Any other matter(s) to be highlighted         the best of our knowledge and belief, after making pretrial respect, true and correct and not misleading	Date         August 12, 2020           Name of the Target Company (TC)         SeQuent Scientific Limited           Registered Office: 301, 3" Proot, Dos Pinnade, Piot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thmes-40004, Matrixashita, India           Details of the Offer pertaining to TC         Open Offer or 10 for 10 acquire upoid of 57.645 (CSR); CSR vol Million Free Hundred Seventy Sta Thousand Fourt Hundred and Fifty Vinni Jaly paid up equity shares of face value of 118.2 (Jindian Ruspers Wije extra Vinni Schwert) Sta Thousand Four Hundred and Fifty Vinni Jaly paid up equity shares of face value of 118.2 (Jindian Od 57.645 (CSR); CSR); Vinni Viso Seprecht) of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian Od 57.645 (CSR); CSR); Vinni Viso Seprecht) of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian Od 57.645 (CSR); CSR); Viso Seprecht) of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian CSR); Viso Seprecht Of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian CSR); Viso Seprecht Of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian CSR); Viso Seprecht Of the Expanded Voling Share Capital of the C1a optice of 118.2 (Jindian CSR); Viso Seprecht Seprecht Schwerkolders.           Name of the Manager to the Offer         Acquirers Circle CFR CSR); Viso Seprecht Schwerkolders.           Name of the Manager to the Offer         Norrure Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Advisors; Capity Viso Schwarz (Star); Viso Schwarz	Date         August 12.2020           Name of the Target Company (TC)         SeQuent Stantific Limited Registered Closs 31, 3" Flood Dasi Presade, Ptk No. E7, Road No. 22, Wagle Mandatal Estate, Thank-40004, Maharashira, India           Details of the Offer pertaining to TC         Open Offer med by CA Harbor Investments (Acquirer), together with CAP V Manufact Limited (TMC), In the capacity as a person acting in concert with the Details of the Offer pertaining to TC         Open Offer med by CA Harbor Investments (Acquirer), together with CAP V Manufact Limited (TMC), In the capacity as a person acting in concert with the Details of the acquirer and PAC with the acquirer         Stantific Close Cl

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Chittoor Dist., A.P.- 517520

Corp. Office: Plot No.24A/A MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana – 500034 Ph.040-23606641,Fax: 040-23606640 Email : legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

## Statement of Standalone & Consolidated Un-audited Results for the Quarter Ended 30th June, 2020 (Rs. in Lakhs)

		2	ed	Year ended	
SI	Particulars	30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020	31.03.2020
No		Unaudited	Un-audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	6,176.11	11,908.79	13,212.42	59,267.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional				
	and/or Extraordinary items)	(91.54)	(131.51)	75.37	1,349.89
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(91.54)	(131.51)	75.37	1,349.89
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(00 70)	(101.04)	00.05	
_	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.73)	(124.04)	80.65	1,093.18
5	Total Comprehensive Income for the period				
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(69.73)	(124.04)	12.34	1,024.87
~		· · · ·	· · · ·		
6	Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19
7	Reserve (excluding revaluation reserves as shown in				
	balance sheet of previous year)	NA	NA	NA	13,770.75
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)				
	(a) Basic (in Rs.)	(2.32)	(4.13)	0.41	34.14
	(b) Diluted (in Rs.)	(2.32)	(4.13)	0.41	34.14

(www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com). 2) The Consolidated Financial Results include results of wholly owned subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited. Both the Subsidiary Companies have not yet started the operations due to which there is no change in Profit/Loss of Consolidated Results compared to Standalone Results being published as on Quarted ended 30.06.2020.

Subros Limited

CIN: L74899DL1985PLC020134 Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.

STANDALONE

7,377 45,847 57,224 1,99,280

2,141

6,270

4,176

QUARTER

ENDED

(UNAUDITED)

2,228

2,228

1,609

(5.293)

(5,293)

(2.403)

3414946, Fax No.: 011-23414945; Website: www.subros.com; Email: rakesh.arora@subros.com

DALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

YEAR

ENDED

(AUDITED)

8,239

12,368

8,457

30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020

(5,292)

(5,292)

(2,402)

**For Nile Limited** Sd/-Pavan Pise **Company Secretary** 

(₹ in Lakhs)

YEAR

ENDED

(AUDITED)

8.267

12,396

8,485

CONSOLIDATED

7,377 45,847 57,224 1,99,280

2,115

6,244

4,150

QUARTER

ENDED

(UNAUDITED)

2,284

2,284

1.665

Place: Hyderabad Date : 12<sup>th</sup> August, 2020

Detailed instructions to Members for joining 30th AGM through VC/ OAVM, including the manner of participation by holders of shares in physical form or by those who have not registered their email address with Company and casting their vote by remote e-voting or e-voting system during the 30th AGM are set out in the Notice of

The Board of Directors has not recommended any Final Dividend for FY 2019-20. The interim dividend declared has already been paid to eligible shareholders in March, 2020. To receive credit of future dividends to the bank account through ECS (Electronic Clearing Service), holders of shares in physical form are requested to provide details of account number, name of the bank, branch and address to RTA. For dematerialized shares, Bank account particulars are to be informed directly to your DP. Also, as dividend income is taxable in the hands of shareholders effective from 1st April, 2020, please update your residential status, PAN & Category as per Income Tax Act with DP/ RTA at info@skdc-consultants.com.

For Magna Electro Castings Limited N KRISHNA SAMARAJ 12" August,2020 Managing Director Coimbatore

### Camlin KOKUYD

# **KOKUYO CAMLIN LIMITED**

CIN: L24223MH1946PLC005434

Regd. Office: 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093 Tel: 91-022-66557000 Fax: 91-022-28366579

E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com Website: www.kokuyocamlin.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 4th September, 2020 at 11.00 a.m. IST to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The venue for the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

In compliance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Notice of the AGM alongwith Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year 2019-2020 has been sent in electronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) (DPs) on Tuesday, 11th August, 2020.

The Copy of Annual Report along with the Notice of the AGM is available on the Company's website www.kokuyocamlin.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

The documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the AGM shall be available on the Company's website for inspection.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereof and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide the facility for e-voting to its shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote e-voting system.

The Company has engaged the services of NSDL, for providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for e-voting are provided in the Notice of the AGM. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e. 28th August. 2020 can cast their vote electronically through electronic voting system of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting period will commence from Tuesday, 1st September, 2020 at 09:00 a.m and will end on Thursday, 3rd September, 2020 at 05:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, such Member shall not be allowed to change subsequently. Members who have acquired shares after sending the Annual report through electronic means and before the cut-off date may obtain the USER ID and Password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password to cast the vote. Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM. However, they shall not be eligible to vote at the meeting. The procedure for electronic voting is available in the Notice of the AGM as well in the email sent to the Members by NSDL. Members can also refer "e-voting" user manual available in the download section of the e-voting website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or 1800-222-990 or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at +91 22 24994559 or at sonis@nsdl.co.in. NOTICE is also given under Section 91 of the Act that the Register of Members and share transfer books will remain closed on all days from 31st August, 2020 to 4th September, 2020 both days inclusive, for the purpose of AGM. FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED

	Comprehensive Income (after tax)]	(2,457)	1,509	4,151	8,240	(2,456)	1,564	4,123	8,266
6	Equity Share Capital	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
7	Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹ 2 each) (for continuing and discontinued operations)								
	a) Basic (not annualised) :	(3.68)	2.46	6.40	12.96	(3.68)	2.55	6.36	13.00
	b) Diluted (not annualised) :	(3.68)	2.46	6.40	12.96	(3.68)	2.55	6.36	13.00

tract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under BI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone uarterly financial results are available on website of the Stock Exchange(s) www.bseindia.com and and also on the Company's website www.subros.com.

er ended 31st March, 2020 represent the difference between the audited figures in respect of full financial year haudited figures for the nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2019

rations comprise of only one segment i.e. Thermal products. Hence, no further information is required to be eament.

ident in one of the plants of the Company situated at Manesar on 29th May, 2016. The fire had severely g, stocks, plant & machinery. These assets were adequately insured with reinstatement clause and a claim surance Company. Special/urgent actions to restart supplies to the customer post fire incident had resulted which were included under the head Exceptional Items in the Statement of Profit and Loss in the earlier ₹ 5,067 Lakhs has been assessed, settled and received during the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2019 and Lakhs, over and above of ₹ 938 Lakhs disclosed as recoverable under the head "Other Financial Assets" 19, has been disclosed as an income under the head Exceptional Items for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2019. March, 2020

rations and financial results for the quarter ended June 30, 2020 have been adversely impacted by the 9 pandemic and the consequent lockdown announced by the Government of India due to which the operations part of the guarter and gradually resumed with requisite precautions. The results for the guarter are, therefore, those for the previous guarters.

onsidered the possible effects that may result from COVID-19 in the preparation of these interim financial er ended June 30, 2020. While assessing the carrying value of its assets and liabilities, the Company has and external information available, and based on such information and assessment, have concluded that no are required to be made to these results. The impact of the pandemic may differ from that estimated as at the hese interim financial results. The Company will continue to closely monitor any material changes to future

9-20, the tax laws were amended, providing an option to pay tax at 22% plus applicable surcharge and cess e 1st April, 2019, with a condition that the Company will need to surrender specified deductions / incentives. sment of future taxable profits, the Company decided to continue with the rate of 30% plus applicable until the Minimum Alternate Tax (MAT) credit asset balance is utilised and opt for the New Rate thereafter. easured its net deferred tax liability balances accordingly.

incial results include the results of the following entities namely, Thai Subros Limited (Subsidiary) for the period (date of liquidation) and Denso Subros Thermal Engineering Centre India Private Limited (Joint Venture).

For and on behalf of the Board of Directors SUBROS LIMITED

RAMESH SURI

CHAIRMAN

Sd/-RAVINDRA V. DAMLE

Place : Mumbai Date : 12th August 2020

VICE PRESIDENT (CORPORATE) & COMPANY SECRETARY







	आरक्षित को छोड़कर)					
8.	आय प्रति इक्विटी शेयर (सम मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर)					
1.	मूल	0.06	0.07	0.12	0.28	
2.	तरल	0.06	0.07	0.12	0.28	
टिप्पण	l fl:	2	A		Net 7	

. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015, सर्क्युलर सं.CIR/CFD/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 द्वारा यथा-संशोधित के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.srusteels.in तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

2. 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

. उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वॉछित रूप में सांविधिक ऑडिटरों द्वारा यथा प्रस्तुत सीमित समीक्षा के अधीन हैं तथा निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

. इन परिणामों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) तथा यथा लागू सीमा तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखा सिद्धांतों तथा अनुप्रयोगों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/तिमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड के लिये

हस्ता./

रमेश अगरवाल

( प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 12 अगस्त, 2020



Registered Office : 301, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra, In Tel.: +91 22 41114777, Email ID: investorrelations@sequent.in, Website: www.sequent.in						
	mittee of Independent Directors ('IDC') on the Open Offer to the Shareholders of SeQuent Scientific Harbor Investments under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) 'Regulations')					
1. Date	August 12, 2020					

16	Date	August 12, 2020
2.	Name of the Target Company (TC)	SeQuent Scientific Limited Registered Office: 301, 3 <sup>d</sup> Floor, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane-400604, Maharashtra, India
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer made by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer ("Open Offer" or "Offer") to acquire upto 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares") representing 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital of the TC at a price of INR 86/- per share from the Public Shareholders.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirers CA Harbor Investments Registered Office: GFin Corporate Services Limited, Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius; Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24 PAC CAP V Mauritius Limited Registered Office: GFin Corporate Services Limited, Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius; Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24
5.	Name of the Manager to the Offer	Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Address: Ceejay House, Level-11, Plot F. Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India Tel: +91 22 4037 4037 Fax: +91 22 4037 4111 Email:sequentscientificopenoffer@nomura.com

# ТЛТЛ शाखा कार्यालय : बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय

आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदारों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टाटा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 20 अगस्त, 2020 (नीलामी की तिथि) को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मुल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

जबकि प्रतिभूति आस्ति की बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली हेतु की जानी है और जबकि समस्त लागतों, ब्याज आदि सहित राशि बकाया थी। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, कथित सम्पत्ति की बिक्री ई–नीलामी द्वारा बी–36, प्रथम एवं द्वितीय तल लाजपत नगर, भाग−2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली−110024 पर की जायेगी। ईएमडी, डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित समय कार्यक्रम के अनुसार ग्रहण की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है स्थिति'' में की जायेगी तथा कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे, जो अब तक सुनिश्चित किये गये हैं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

क्र. सं.		उत्तराधिकारी( यों )⁄प्रतिनिधि ( यों ) के नाम	माँग सूचना के अनुसार बकाया देय	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	9516254	श्री दत्तात्रेय शिरके (कर्जदार) एवं श्री सन्तोष कुमार सिंह (सह–कर्जदार)	22 जनवरी, 2018 रु. 31,48,315/-	भौतिक	रु. 38,52,000/- रु. 3,85,200/-	8	29 अगस्त, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच	20 अगस्त, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच
मीट पर		का विवरण ः मद सं. 1 का सम् ते' में संलग्न नक्शे के अनुसार नि भी व्यापिष भाजपूर्व		ॉट सं. 20,	, आवासीय कॉलोनी		l, गाजियाँबाद, तहसील एवं जि	जला गाजियाबाद (उ.प्र.)

I	2.	10167785	श्री दयानिधि आचार्य	30 सितम्बर, 2019	भौतिक	रु.	28.08.2029 को	29 अगस्त, 2020 को	20 अगस्त, 2020 को				
I		10177169	(कर्जदार)	को		28,46,250/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	11 बजे पूर्वा. से 5.00				
I				रु. 31,80,384/-	1	रु. 2,84,625/-	s	बजे अप. के बीच	बजे अप. के बीच				
I	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण : फ्लैट सं. ए–903, भवन/प्रोजेक्ट ओएसिस वेनेशिया हाइट्स की 9वीं मंजिल पर, एचआरए 12–ए, साइट–सी, सूरजपुर हाउसिंग कॉम्पलेक्स,												
I	ग्रेटर	ग्रेटर नोएडा, उ.प्र201301 पर स्थित का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट, आवंटन पत्र/विक्रय अनुबन्ध में लिखित कॉमन सुविधाओं के साथ।											

1.11	9 83		11 S.A.			6.6	·	
3.	9263868	श्री दीपक जस्साल (कर्जदार)	16 नवम्बर, 2018	भौतिक	रु.	28.08.2029 को	29 अगस्त, 2020 को	20 अगस्त, 2020 को
	9268765	एवं श्रीमती सुनीता जस्सल	को		30,24,000/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	11 बजे पूर्वा. से 5.00
		(सह-कर्जदार)	रु. 36,19,387/-			8	बजे अप. के बीच	बजे अप. के बीच
			. ,	11	रु. 3,02,400/-			

प्रतिभत आस्तियों का विवरण : मद सं. 1. एक्जीक्यूटिव ब्लॉक पर भतल पर, सम्पर्ण फ्लैट सं. 6, छत के अधिकार संहित, कवर्ड एरिया 945 वर्ग फीट अर्थात 87.79 वर्ग मीटर, अलकनन्दा अपार्टमेंट, टी.एच. आवास कॉलोनी, रामपुरी, ग्राम-चिकम्बरपुर, परगना-लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद, सेक्टर-7, गाजियाबाद।

4.	10080064	श्री अजित कुमार सिंह	30 सितम्बर, 2019	भौतिक	रु.	28.08.2029 को	29 अगस्त, 2020 को	20 अगस्त, 2020 को			
	10074196	(कर्जदार) एवं श्रीमती गीता	को		27,60,000/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	11 बजे पूर्वा. से 5.00			
		सिंह (सह-कर्जदार)	रु. 32,04,156/-	8	<b>T</b> 0 <b>T</b> ( 000 (	9	बजे अप. के बीच	बजे अप. के बीच			
					रु. 2,76,000/-						
प्रति	भूत आस्तियों	का विवरण ः फ्लैट सं. ए-170	1, भवन/प्रोजेक्ट ओए	सिस वेने	शिया हाइट्स की 1	7वीं मंजिल, एचआ	रए 12-ए, साइट-सी, सूरज	पुर हाउसिंग कॉम्पलेक्स,			
ग्रेटर	ग्रेटर नोएडा, उ.प्र201301 पर स्थित का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट, आवंटन पत्र/विक्रय अनुबन्ध में लिखित कॉमन सुविधाओं के साथ।										
-											

गतिशत आ	कर्जदार) तयों का विवरण :  मद सं. 1 : यूनि	रु. 29,17,219/-		रु. 3,71,520/- ओणपिया तेनेशिया र		बजे अप. के बीच चिन्न प्रच्यामा 12 प्र स्पट	बजे अप. के र मी मप्रजाप द
	सेवी की विवरण इ. मेद से. 1 इ यूनि ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201301 पर स्थि						
6. 10144	327 श्रीमती रेणुका शर्मा (कर्जदार)	· · · ·				29 अगस्त, 2020 को	
	तथा श्री अजय शर्मा (सह-	को		33,12,000/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	
	कर्जदार)	<b>रु.</b> 29,55,213/-		रु. 3,31,200/-		बजे अप. के बीच	बजे अप. के
	तयों का विवरण : मद सं. 1. फ्लै						
हाउसिंग कॉम	पलेक्स, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र201301	पर स्थित का सम्पूर्ण	भाग, माप	क्षेत्रफल 150 वर्ग	फीट, आवंटन पत्र/	वेक्रय अनुबन्ध में लिखित क	जॅमन सुविधाओं के
7. 97134	01   श्री विवेक सिंह नेगी	20 फरवरी, 2018	भौतिक	रु. 33,48,734/-	28.08.2029 को	29 अगस्त, 2020 को	
	(कर्जदार) एवं श्रीमती अमृता	को 🗌	-	<b>.</b> 33,48,73/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	11 बजे पूर्वा. से
	सारंग (सह-कर्जदार)	रु. 36,84,449/-				बजे अप. के बीच	बजे अप. के
	तयों का विवरण : यूनिट सं. ए-303 सम्पूर्ण भाग, कॉमन अधिकार एवं र						नोएडा, उ.प्र20
8. 93870	45 श्री वरुण कुमार (कर्जदार)		भौतिक	रु.	28.08.2029 को	29 अगस्त, 2020 को	20 अगस्त, 202
	एवं श्री माँगे राम चौधरी	रु. 47,48,211/-		41,39,007/-	5 बजे अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	11 बजे पूर्वा. से
	(सह-कर्जदार)		i i	रु. 4,13,900/-		बजे अप. के बीच	बजे अप. के
	आस्तियों का विवरण : फ्लैट/यूनिट						पुप हाउसिंग रेजिडे
- L.S.	प्लॉट सं. जीएच-06ए, नोएडा एक्स					61	
	71 श्री रविन दास (कर्जदार) एवं		भौतिक		28.08.2029 को		20 अगस्त, 202
9. 91927							
तथा	श्रीमती शिवानी (सह–				5 बज अप. तक	2.00 बजे अप. से 3.00	
तथा 91928	श्रीमती शिवानी (सह- 39 कर्जदार)		ŝ		<u>,</u>	बजे अप. के बीच	बजे अप. के
तथा 91928	श्रीमती शिवानी (सह–			माँग सूचना के उ	5 बज अप. तक अनुसार बकाया देय	बजे अप. के बीच	

प्रतिनिधित्व द्वारा स्वाभाविक अभिभावक– श्रीमती रिंकू शर्मा, 4) सुश्री कशिश शर्मा, पुत्री स्व. रगि दत्त शर्मा, अल्प वयस्क होने के कारण प्रतिनिधित्व द्वारा स्वाभाविक अभिभावक- श्रीमती रिक शर्मा, सभी 2, 3 एवं 4 निवासीः बी-89, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, जे ऋणधारक/ गारन्टर्स/ सह-देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., द्वारका शाखा, नई दिल्ली, एचआइ स्क्वॉयर, प्लॉट नं. 6, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली- 110075, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 01.08.2020 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ ओवरड्राफ्ट खाता सं. 5517000100002901 के अंतर्गत रु. 1,21,85,533.61 (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख पचासी हजार पांच सौ तैंतीस तथा पैसे इकसठ मात्र) की वसुली के लिये 24.9.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

### अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री रवि दत्त शर्मा ( अब मत्)प्रतिनिधित्व द्वारा उनके काननी उत्तराधिकारियों श्रीमती रिक शर्मा. मास्टर केशव शर्मा एवं सश्री कशिश शर्मा के स्वामित्व में डीडीए एसएफएस प्लैट. सम्पत्ति सं 569, माप 1100 वर्ग फीट, भ तल पर, कैटगरी-II, पॉकेट-1 का सभी भाग तथा हिस्सा जे सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है।

चौहदी: पूर्वः गली, पश्चिमः प्रवेश एवं पार्क, उत्तरः ओपन कॉरीडोर, दक्षिणः फ्लैट नं. 581 आरक्षित मुल्य/ अपसेट मुल्य जिससे कम से कम सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु. 1,09,82,000.00 (रुपये एक करोड़ नौ लाख बयासी हजार मात्र)

जमा/ प्रस्तुत की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 10,98,200.00 (रुपये दस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ मात्र) है।

(ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

(इस सूचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली-2002 के नियम (8) के उप-नियम (6) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाए।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् www.karnatakbank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिए गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें। ई-नीलामी का संचालन 24.09.2020 को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जाएगा इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा मै. 4 क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, सम्पर्क नं 040-23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेलः vikas@bankauctions.in तथ info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 23.9.2020 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

स्थानः	दिल्ली		कर्ण	टिका	बैंक	लि.	के	लिए
तिथिः	11.8.2020	मुख्य	प्रबंधक	एवं	प्राधिवृ	ृत्त	अधि	कारी

# सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सभी लोगों को जानकारी दी जाती हैं, स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता हैं और सावधानी हेतू सूचना दी जाती हैं की -

फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड **(एफएमपीएल)** और उनसे सम्बंधित, सहयोगी कंपनियाँ और समूह की कंपनियों के (एफएमपीएल समूह) के संज्ञान में यह आया हैं की कुछ विवेकहीन और धोखेबाज व्यक्ति/संस्था एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समूह के नाम का दृरुपयोग कर रहे हैं और उनके प्रतिनिधि, कार्यकारी अधिकारी, कर्मचारी और अधिकारी होने का झठा दावा कर रहे हैं और झूठे एवं गुमराह करनेवाले ई-मेल, पत्र, टेक्स्ट मेसेज और व्हॉट्सॲप मेसेज भेजकर लोगों को (इनमें गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट भी शामिल हैं) ठगने/उनसे धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समुह की ओर से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से सम्बंधित कामों के लिए दान देने / शामिल होने के लिए उकसा रहे

एफएमपीएल और एफएमपीएल समूह के संज्ञान में यह भी आया हैं की ऐसे विवेकहीन और धोखेबाज व्यक्ति/ संस्था लोगों से (इनमें गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट भी शामिल हैं) संपर्क तो कर ही रहे हैं, साथ ही एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समूह के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से सम्बंधित कामों के बारे में झठी और गमराह करनेवाली जानकारी दे रहे हैं और अपने यह धोखाधड़ी के काम वैध होने का दिखावा करने के लिए यह विवेकहीन और धोखेबाज व्यक्ति/ संस्था यह लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समूह की नकली/जाली स्टेशनरी का कपटपूर्वक/गलत उपयोग कर रहे हैं।

इसके द्वारा सभी लोगों को की जानकारी दी जाती हैं, स्पष्ट रूप से सुचित किया जाता हैं और सावधानी हेतु सूचना दी जाती हैं की –

7. ID	embers of the Committee of Independent rectors		एवलॉन होम्स, खसरा नं. 663/355/ 664/ 356, 664/357, 358 तथा 359, ग्राम मसीत, तहसील तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान (ऋण खाता सं. 9192771 में)	<b></b> . 14,41,628/–		
10 M		Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam, Member	फ्लैट सं. 1002 का सम्पूर्ण भाग, माप 650 वर्ग फीट, 2-बीएचके, ब्लॉक बी-3,	15 जून, 2017 को रु. 6,61,	021/- रु. 66.102/-	<ol> <li>एफएमपीएल या एफएमपीएल समूह, साथ ही उनके प्रवर्तक, अधिकारी, निदेशक, कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारियों में से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी</li> </ol>
	quity shares owned, any other contract / lationship)	All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC Shareholding of IDC Members in the TC: Dr. Gopakumar G Nair – 1,16,740 equity shares Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam – NIL The IDCs have no relationship with the Company other than through their position of IDs and by way of the shares held by them as above in the TC.	मसीत, तहसील तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान (ऋण खाता सं. 9192839 में) 10. 9420391 स्व. श्री मोहन लाल के विधिक 27 फरवरी, 2017 भौतिक र उत्तराधिकारी (कर्जदार) एवं को 12,83,	3,040/- 5 बजे अप. तक 2.00 बजे अप ,28,304 बजे अप. दं		भी विवेकहीन और धोखेबाज कामों में शामिल नहीं हैं या उनका इस प्रकार के किसी भी विवेकहीन व्यक्ति/ संस्था से संबंध नहीं हैं। २. आप में से किसी को भी एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समूह के द्वारा, उनके लिए या उनकी ओर से होने का दावा करनेवाले किसी भी ईमेल, पत्र, टेक्स्ट मेसेज, व्हॉट्सऑप मेसेज या और किसी भी संचार के बारे में थोडा भी संदेह हो तो ऐसे किसी भी संदेश के संबंध
the	e TC by IDC Members	None of the Members of IDC have traded in any of the Equity Shares/securities of the TC during the period of 12 months prior to the Public Announcement dated May 8, 2020 and till the date of this recommendation.	110085 बिक्री के लिए रखी गई आस्ति/सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधि जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षर्र	री के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा क	र दिए होने का उनकी संतुष्टि के	में आगे की कार्यवाही करने से पहले/कदम उठाने से पहले हम से socini@forbesmarshall.com/legalteam@forbesmarshall.com पर तुरंत संपर्क करें।
(D	irector, Equity shares owned, any other	The IDC Members do not hold any equity shares or other securities of the Acquirer and/or PAC and have no contract/relationship with Acquirer and/or PAC and/or their respective Directors.	लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनत ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।	के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्य		३. जहाँ तक एफएमपीएल तथा/अथवा एफएमपीएल समूह के द्वारा किए जानेवाले निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से सम्बंधित कामों की बात हैं, ऐसे सीएसआर काम उनके सम्बंधित सीएसआर विभागों के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही किये जाते हैं (ना कि
	ading in the Equity shares/other securities of e acquirer by IDC Members	None	यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखि ई–नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://dispo	osalHub.com के माध्यम से आयोजित व		उनकी तरफ से काम करने का दावा करनेवाले किसी बिचौलिए या अन्य व्यक्ति के माध्यम से) और यह काम एफएमपीएल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निति में सम्मिलित
	hether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the view that the Open Offer is fair and reasonable, as it is in accordance with the provisions of the SEBI SAST Regulations. However, the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.	<ol> <li>संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधि जायेगा।</li> <li>आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।</li> <li>बोली र खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनें प्र</li></ol>	धेत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- (रुपये दस ह रेंस लिमिटेड'' के पक्ष में देय सूरत, पता : व	फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति की र्नार्यालय सं. 208,209, 210,211	नियम और शतों के अनुसार होते हैं। ४. ऐसे धोखेबाज व्यक्ति/ संस्थाओं के खिलाफ उचित क़ानूनी कार्यवाही (दीवानी और आपराधिक) करने का अधिकार एफएमपीएल आणि एफएमपीएल समूह सुरक्षित रखता हैं।
12. Su		Based on the review of the Public Announcement (PA) dated May 8, 2020, the Detailed Public Statement (DPS) dated May 14, 2020, the Draft Letter of Offer (DLOF) dated May 22, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020 and Second Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 86/- offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the SEBI SAST Regulations and prima facie appear to be justified.	एवं 212, द्वितीय तल, ईको फुतुर्ज, न्यू सिटीलाइट रोड, सिटी लाइट, सूरत-395007 में बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट नीलामी के पश्चात वापस लौटा दिया जायेगा। 5. उच्चत रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्य से करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्य बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है। 7. सफल संविदाकार घोषित किये गय के पास क्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री	तम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषि कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रू स्वीकार कर सकते हैं। 6. दर्ज कारणों से प्र ये क्रेता को ऐसी घोषणा के तुरन्त बाद 24 घ ा पर सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की ो की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उ	त किया जायेगा बशर्ते वे कानूनी प से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा ाधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से ण्टों के भीतर प्राधिकारी अधिकारी जायेगी। 8. यदि उपरोक्त रूप में रस दिन को छोड़कर, अथवा यदि	सभी लोगों को इसके द्वारा यह सूचित किया जाता हैं की ऊपर किये गए खुलासे के बावजूद भी अगर कोई भी (गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट आदि) ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों से (जिसमे धोखेबाज व्यक्ति/संस्था भी शामिल हैं) जुड़ता हैं तथा/अथवा व्यवहार करता हैं, तो ऐसे व्यवहार (i) एफएमपीएल पर या एफएमपीएल समूह पर बंधनकारक नहीं होंगे; (ii) सम्पूर्ण रूप से ऐसा व्यवहार करनेवालों की जिम्मेदारी, जिसमें खर्च और परिणाम दोनों शामिल हैं, होंगे; (iii) करने
13. De	etails of Independent Advisors, if any	None	15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रहवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवर में चुक करने पर नीलामी/बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद निजी सन्धि द्व		<b>S</b>	पर उस व्यक्ति को होनेवाले नुकसान तथा/अथवा क्षति के लिए एफएमपीएल या एफएमपीएल
14. An	ny other matter(s) to be highlighted	None	म चूक करने पर नालामा/गवक्री का नइ उद्धावणा जारी करने क बाद निजा सान्य ह टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने व			समूह, जिसमे उनके सम्बंधित प्रवर्तक, अधिकारी, निदेशक और कर्मचारी शामिल हैं (प्रत्यक्ष या
materia		oper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all g, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the SEBI SAST Regulations. For and behalf of The Committee of Independent Directors of SeQuent Scientific Limited Sd/-	हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण विवरणों: शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं। 11. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइ एवं विपणन के क्लाइंट सेवा प्रदाता (सीएसडी) विभाग तथा ई-सेवा प्रदाता मैसर्स पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5, क्रॉसिंग रेलवे रोड, गुरुग्राम-122 006 से इसके मोबाइल नं. 933, ई-मेल आईडी : CSD@disposalhub.com अथवा अरिजीत भट्टाचार्य 9029073280 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : वेबसाइट https://bitly/2PHyBfb में प्रावधानित लिंक देखें।	ण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उ इन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पत i. +91 97100 29933, +91 98100 2992 रें से ई-मेल आईडी : arijit.bhatt@tata	स प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात संभावित बोलीदाता हमारे विक्रय #203, दूसरी मंजिल, स्री श्याम 26, दूरभाष नं. +91 124 4 233 capital.com तथा मोबाइल नं.	अप्रत्यक्ष) रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे और (iv) एफएमपीएल और एफएमपीएल समूह के साथ ही उनके सम्बंधित प्रवर्तक, अधिकारी, निदेशक और कर्मचारी आदि के बचाव का हक़, अधिकार, दावों, विवादों के अधीन होंगे इस बात पर ध्यान दें. हस्ता/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
12.12.0002.1	a: Thane	Dr. Gopakumar G. Nair				आज तिथि १२ अगस्त २०२० फोर्क्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड
Date:	August 12, 2020	Chairperson - Committee of Independent Directors	तिथि : 12.08.2020 स्थान : दिल्ली/रा.स.क्षे.	ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते टाटा कै	ापटल हाउासग फाइनस लामटेड	

www.readwhere.com

# मुंबई लक्षदीप 🗠

#### गणेशोत्सवासाठी जिल्हाधिकारी <sup>रोजच वाचा</sup> <sup>क्षक</sup> मुंबई लक्षदीप निकृष्ट काम केल्यास कंत्राटदार ठरणार देशद्रोही - उध्दव ठाकरे म्ंबई@लक्षदीप यांनी दिल्या मार्गदर्शक सूचना **PUBLIC NOTICE** दि. करणाऱ्यांना ई-पास सक्तीचा सिंधुदुर्ग, 35 त्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक करताना चार टप्पे करण्यात आले कोलित दिले आहे. यामुळे चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. Notice is hereby given that Smt. कोल्हापुर. ता. 9२. (हिंदुरथान समाचार) असणार आहे. सदर पास : बांधकाम खात्यातील विविध कामे अधिकाऱ्यांकडन मोठ्या प्रमाणात Smita Harshad Shah & Shri (प्रतिनिधी) ः कामात त्रुटी आहेत. त्यामध्ये दीड ते पाच कोटी, जानेवारीपासून कंत्राटदारांची स-गणेशोत्सवाढरम्यान श्रींच्या covid19.mahapolice.in Harshad Prabhulal Shah, are the होतात. या कंत्राटदारांना बाजला अथवा दर्जा निकुष्ट आढळल्यास पाच ते पंधरा कोटी, पंधरा ते पन्नास भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त रकारकडे तीन हजार कोटींची बिले owners of Shop No.B/4. Shambhu मूर्तीचे आगमन ਕ या संकेतस्थळावर उपलब्ध कंत्राटदारास देशद्रोही ठरवतानाच करण्यासाठी सर्वच कामे बड्या कोटी व पन्नास कोटीपेक्षा अधिक अडकली आहेत, ती मिळावीत केली जात आहे. या नियमामुळे Sadan Co-Op. Hsg. Soc. Ltd., at विसर्जनावेळी मिरवणक होईल. दिनांक १२ ऑगस्ट रकमेच्या कामांचा समावेश आहे. त्याच्यावर फौजदारी करण्याचा कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय तीन राज्यातील कंत्राटदारामध्ये प्रचंड म्हणून वीसवेळा पत्र पाठवूनही Jain Mandir Road, Devchand Nagar, Bhayander (W), Dist. Thane, and २०२० पर्यंत गणेशोत्सवासाठी निर्णय राज्य सरकरने घेतला आ-वर्षापूर्वी घेण्यात आला. यामुळे बडे त्याकडे जोशी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा काढू नये, तसेच आरती, कंत्राटदराकडून एखाद्या कामात असंतोष निर्माण झाला आहे. that they have lost their Original Share भजन व किर्तनाचे कार्यक्रम कंत्राटदार निविदा भरतात आणि ते आरोपही या पत्रात केला आहे. येणाऱ्या नागरिकांना १० हे. पण याचवेळी ज्याच्यावर या त्रुटी राहिल्यास त्याला देशद्रोही सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे Certificate, in respect of the said अशा छोट्या कंत्राटदाराकडून कामे कामाच्या देखरेखीची जबाबदारी अशी होणार कंत्राटदारावर घरीच करावेत अशा सचना ठरवण्याबरोबरच त्याच्यावर घ्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलन दिवस गृह अलगीकरणात Shop and have applied to the society for issuing of duplicate Share करून घेतात. ज्यातुन ते वरच्या वर करण्याचा इशारा महाराष्ट राज्य असते, त्या सार्वजनिक बांधकाम दंडात्मक कारवाईबरोबरच कारवाई जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी रहावे लागणार आहे. त्यासाठी Certificate. All person/s having any व पाटबंधारे खात्यातील सरकारी लोणी खातात. या कठीण स्थितीतून फौजदारी करण्यात येणार आ-कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. संबंधित कंत्राटदाराची यांनी दिल्या आहेत नागरिकांना कोणत्याही claims can object in writing togethe अधिकाऱ्यांना मात्र नामनिराळे हे. पण निविदा प्रक्रियेपासून ते राज्याच्या बांधकाम विभागाचे नामनोंदणी होणार रद्द सावरत असतानाच राज्याच्या गणेशोत्सव २०२०साठी कोविड १९ च्या तपासणीची with documentary evidence at A/104, ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त नोंदणीबद्ध वर्गातुन होणार New Shree Siddhivinayak CHS Ltd. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३० काम पर्ण होईपर्यंत त्याच्यावर सचिव सी. पी. जोशी हे दहा जिल्हा– आवश्यकता नाही. दिनांक धिकारी यांनीम at Station Road, Bhayander (W) केले जात आहे. दरम्यान, तीन जुलै रोजी एक परिपत्रक काढले देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी दिवसापर्वी सेवानिवत्त झाले. पदावनती ार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. १२ ऑगस्ट २०२० नंतर जे Dist. Thane – 401 101 within 14 days आहे. यामध्ये राज्यातील छोट्या किरकोळ चूक असल्यास सक्त हजार कोटींची बिले अडकली निवत्तीच्या आदल्या दिवशीच त्यांनी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांची from date of notice failing which it या मार्गदर्शक सूचना नागरिक जिल्ह्यात प्रवेश असताना त्यातील एकही रुपया कंत्राटदारांना अनेक जाचक अटी व असते, त्याला मात्र नामनिराळे हे परिपत्रक काढले आहे. कंत्राट-ताकीद मिळणार shall be assumed that no any पुढील प्रमाणे आहेत. जिल्ह्यात करणार आहेत त्यांना किमान नियम लावण्यात आले आहेत. दर काळ्या यादीत नावाचा होणार person/s has any claim, and society न दिलेल्या सरकारने हा नवा ठेवण्यात आले आहे. शिवाय दार महासंघाने जोशी यांच्यावरच येण्यासाठी एस.टीने प्रवास ४८ तास आधी कोरोना चाचणी will accept the application of which तीन वर्षांनी नामनोंदणी करण्याचा समावेश नियम करून छोट्या कंत्राटदारांना संबधित अधिकाऱ्यानेच कंत्राट-अनेक आक्षेप घेतले आहेत. please take a note. अहवाल निगेटीव्ह असणे करणाऱ्यांसाठी वेगळ्या ई– देशद्राही ठरवतानाच फौजदारी संपवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप नवा नियम करण्यात आला आहे. दरावर गुन्हा दाखल करावा असा त्यांच्या संशयास्पद व्यवहाराची SUNIL B. GARODIA गरजेचे आहे. या व्यक्तींनी ३ नियम करत त्या अधिकाऱ्यांच्या पासची गरज भासणार नाही. करण्यात येत आहे. राज्यात साडे यासाठी कागदपत्रांची मोठी जंत्रीच चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने गुन्हा दाखल करणार (Advocate, High Court, Mumbai) दंडात्मक कारवाई होणार तीन लाख छोटे कंत्राटदार आहेत. जोडावी लागणार आहे. नामनोंदणी हातात भ्रष्टाचार करायला आयते सार्वजिन बांधकाम मंत्री अशोक इतर खाजगी वहनाने प्रवास दिवस घराबाहेर पडू नये, Place : Bhayander Date : 13.08.2020 सावत्र आईने बॉयफ्रेंडच्या एस एच केळकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेड रोज वाचा दै. 'मुंबई लक्षदीप' Keva सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९५५पीएलसी००९५९३ मदतीने केला मुलाचा खून नोंदणीकृत कार्यालय: देवकरण मॅन्शन, ३६, मंगलदास रोड, मुंबई-४००००२, भारत वेबसाईट: www.keva.co.in ई-मेल: investors@keva.co.in दूर.क.:+९१-२२-२१६४९१६३, फॅक्स:+९१-२२-२१६४९७६६ ३० जून, २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता एकत्रित अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल यवतमाळ, ता. १२, होत असत. ३ ऑगस्टच्या रात्री (रू. कोटीत, शेअर डाटा व नमूद केल्या व्यतिरिक्त) (प्रतिनिधी): अनैतिक संबंधात याच कारणावरून कमलेशचा आई SeQuent Scientific Limited शोभा आणि नरेंद्र ढेंगाळे यांच्याशी मुलाचा अडथळा निर्माण होत CIN : L999999MH1985PLC036685 असल्याने जोरदार वाद झाला होता. Registered Office : 301, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604, Maharashtra, India. सावत्र आईने प्रियकराच्या मदतीने त्यामुळे नरेंद्र ढेंगाळे व शोभा मुलाचा खून केल्याची घटना मोझर या दोघांनी कमलेशला बेदम येथे उघडकीस आली. कमलेश मारहाण केली. त्यानंतर नरेंद्रने दगडु चव्हाण (वय ३२) असे कमलेशला उचलून स्मशानभू

द्रचाकीवरून आलेल्या दीघानी तरुणीला केली दमदाटी, मोबाईल च

मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी नेर

शोभा दगडू चव्हाण (वय ५०) व

तिचा प्रियकर नरेंद्र ज्ञानेश्वर ढेंगाळे

(वय ४२) यांना अटक केली आहे.

पोलिसांनी मृताची सावत्र आई

मोझर येथील चिकन

चव्हाण याचा मृतदेह ४ ऑगस्ट

व्यावसायिक कमलेश दगडू

रोजी सकाळी मोझर येथील

स्मशानभूमीजवळ पडलेला

आढळून आला होता. त्याच्या

अंगावर असलेल्या जखमांवरून

त्याचा खून करण्यात आल्याचे

दिसून येत होते. याप्रकरणी नेर

पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास

सुरू केला. पोलिसांनी केलेल्या

चौकशीत मृत कमलेशची सावत्र

आई शोभा चव्हाण हिचे गावातील

व्यावसायिक नरेंद्र ज्ञानेश्वर ढेंगाळे

या दोघांमध्ये अनैतिक संबंध होते.

सावत्र मुलगा कमलेशला

आपल्या आईचे असे संबंध पसंत

नसल्याने त्यांच्यामध्ये नेहमी वाद

**औरंगाबाद, ता. १२,** राव केल्यानंतर दामीनीला (हिंदुस्थान समाचार) : मैत्रिणी करायचा असल्याने दोघीही सोबत पोलीस भरतीचा स- रूको कॉर्नर चौकात थांबल्या. 11. Recommendation on the Open Offer रश्मीने तिचा मोबाईल खिशातून बाहेर काढला. दरम्यान एका विना क्रमांकाच्या दुचाकीवरून १८ ते २० वयोगटातील दोन तरुण तेथे आले. दमदाटी करून बळजबरीने रश्मीच्या हातातील मोबाईल हिसकवला व तेथून कलाग्रामच्या रस्त्याने पळाले. दोघींनी आरडाओरड केली. मात्र रस्त्यावर कोणीही नसल्याने मदत मिळाली नाही. रश्मीने मंगळवारी घडलेली हकीकत वडिलांना एमआयडीसी सांगितल्यानंतर सिडको पोलीस ठाण्यात दोन अज्ञात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल

त्यामुळ नरद्र ढगाळ व शाभा	"		<b>D:</b> investorrelations@sequent.in, <b>Website:</b> www.sequent.in	कालाव
या दोघांनी कमलेशला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर नरेंद्रने	Lim	commendations of the Committee of Independent ited (the ' <b>Company</b> ') by CA Harbor Investments u	Torrectors' (IDC') on the Open Offer to the Shareholders of SeQuent Scientific nder Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)	(कर, करपूर्व
नमलेशला उचलून स्मशानभूमीत	Reg	gulations, 2011 ('SEBI SAST Regulations')	August 12, 2020	(अपवा करानंत
ले व त्याठिकाणीही त्याच्यावर	2.	Name of the Target Company (TC)	SeQuent Scientific Limited	(अपवा
कूने वार केले. तसेच	-		Registered Office: 301, 3 <sup>st</sup> Floor, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane-400604, Maharashtra, India	कालाव नफा/(
ठिकाणी पडलेल्या दारूच्या टक्या बाटलीनेही त्याला सकले. दरम्यान ४ ऑगस्ट नी सकाळी कमलेशचा मृतदेह ढळून आल्याने गावात खळबळ	3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer made by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer ("Open Offer" or "Offer") to acquire upto 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares") representing 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital of the TC at a price of INR 86/- per share from the Public Shareholders.	समभाग मागील उत्पन्न (खंडीत मूळ सौमिवृ
ડાલો.	4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the	Acquirers	टिप:
नेर पोलिसांनी नरेंद्र ढेंगाळे व भा चव्हाण या दोघांना ताब्यात		acquirer	CA Harbor Investments Registered Office: GFin Corporate Services Limited, Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius;	१. ए तपशी
त्न त्यांची चौकशी सुरू करताच वातीला त्यांनी काही सांगण्यास			Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24 PAC	
गटाळ केली. पण पोलिसांनी			CAP V Mauritius Limited Registered Office: GFin Corporate Services Limited, Level 6, GFin Tower, 42 Hotel Street, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius;	कार्यच करपूर्व करानंत
ग्ला हिसका दाखवताच			Tel: +230 404 39 00; Fax: +230 454 68 24	२. ए
नी, आपल्या संबंधात अडसर 1 असल्यानेच कमलेशचा 1 केल्याचे त्यांनी पोलिसांना गेतले. उपविभागीय पोलिस वकारी उदयसिंग चंदेल यांच्या	5.	Name of the Manager to the Offer	Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Address: Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India Tel: +91 22 4037 4037 Fax: +91 22 4037 4111 Email:sequentscientificopenoffer@nomura.com Contact Person: Vishal Kanjani/Prithvi Garg	(† († 33 वि
दर्शनात नेरचे ठाणेदार प्रशांत	6.	Members of the Committee of Independent Directors	Dr. Gopakumar G Nair, Chairperson Dr. (Mrs.) Kausalya Santhanam, Member	३. हि व
ाम, पोलिस उपनिरीक्षक गील निराळे यांच्या पथकाने हा न केला.	7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship)		प न उ ४. ३ प्र
ल्या दोघांनी ो, मोबाईल चोरी	8.	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	of the TC during the period of 12 months prior to the Public Announcement dated May 8, 2020 and till the date of this recommendation.	ठिकाण दिनांक
केल्यानंतर दामीनीला कॉल	9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship)	Acquirer and/or PAC and have no contract/relationship with Acquirer and/or PAC and/or their respective Directors.	
यचा असल्याने दोघीही मा-		Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members		
ो कॉर्नर चौकात थांबल्या	44	Decomposidation on the Onen Offer on to	The IDC is of the view that the Open Offer is fair and researches, so it is in	

	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेले वर्ष
तपशील	३०.०६.२०२०	३०.०६.२०१९	३१.०३.२०२०	३१.०३.२०२०
	अलेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	૧૬૨.૬૩	२७४.३८	२७१.१६	9998.23
कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)				
(कर, अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्व)	96.83	२८.६१	92.02	۲۵.۵۲
करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)				
(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर)	96.83	२८.६१	92.02	५३.३२
करानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा)				
(अपवादात्मक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर)	98.८9	9८.९८	9२.०२	38.00
कालावधीकरिता एकूण सर्वकष उत्पन्न (कालावधीकरिता सर्वंकष				
नफा/(तोटा)(करानंतर) आणि इतर सर्वंकष उत्पन्न (करानंतर))	98.04	90.02	9८.9८	30.04
समभाग भांडवल	989.32	<u> </u>	989.32	989.32
मागील लेखावर्षाच्या ताळेबंद पत्रकानुसार पुनर्मुल्यांकित राखीव वगळून राखीव	-	-	-	६८२.६७
उत्पन्न प्रतिभाग (दर्शनी मूल्य रू.१०/– प्रत्येकी)				
(खंडीत व अखंडीत कार्यचलनाकरिता)				
मूळ	9.99	9.39	0.९٩	૨.૬૬
सौमिकृत	9.99	9.39	0.९٩	૨.५६
टिप:				
<ol> <li>एकमेव वित्तीय निष्कर्षांचे मुख्य आकडे:</li> </ol>				(रू.कोटीत)
	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेले वर्ष
तपशील	३०.०६.२०२०	३०.०३.२०१९		३१.०३.२०२०
	अलेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित
कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	୩२७.७९	90६.८८	900.23	७१८.८३

एस एच केळकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेड व त्यांच्या उपकंपन्या (यापुढे समुह म्हणून संदर्भीत) व त्यांचे संयुक्त भागीदार संस्थांचे वरील एकत्रित वित्तीय निष्कर्षाचे लेखासमितीद्वारे पुनर्विलोकन करण्यात आले आणि तदनुसार १२ ऑगस्ट, २०२० रोजी झालेल्या एस एच केळकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेडच्य (कंपनी) संचालक मंडळाच्या दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२० रोजी झालेल्या सभेत मान्य करण्यात आले. कंपनीच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांद्वारे सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (यापुढे लिस्टिंग रेग्युलेशन्स २०१५ म्हणून उल्लेख) च्या विनिमय ३३ अन्वये ३० जून, २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिताचे वरील निष्कर्षाचे मर्यादित पुनर्विलोकन करण्यात आले आहे. मर्यादित पुनर्विलोकन अहवालात कोणतीही टिप्पणी समाविष्ट नाही. सदर निष्कर्ष स्टॉक एक्सचेंजेसकडे सादर करण्यात आला आहे. तसेच कंपनीच्या www.keva.co.ir वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

- लिस्टिंग रेग्युलेशन २०१५ च्या विनियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली ३० जून, २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता एकमे व एकत्रित वित्तीय निष्कर्षाचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. ३० जून, २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता एकमेव व एकत्रित वित्तीय निष्कर्षाचे संपूर्ण नमूना स्टॉक एक्सचेंजेसच्या www.nseindia.com व www.bseindia.com आणि कंपनीच्या www.keva.co.in वेबसाईटवे उपलब्ध आहे.
- ३० जून, २०२०, ३० जून, २०१९ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरिता मूळ व सौमिकृत उत्पन्न प्रतिभाग हे कंपनीदारे धारण टेझरी शेअर्सचे प्रभावाकरिता तजवीज करण्यात आले

र्भंचालक मंडळाच्या वतीने व करित	π
सही/-	-
केदार वइ	À
संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकार	ft

8.20

3.98

93.88

8.00

Yashovardhan Sinha HUF (PAC 5

३८.६८

26.33

90.८9

0.90

## OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF ADITYA VISION LIMITED

राव करण्यासाठी गेलेल्या १९ दुचाकीवर वर्षीय तरुणीला आलेल्या दोघांनी दमदाटी करीत १७ हजाराचा मोबाईल हिसकावल्याची घटना चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरात घडली. याप्रकरणी दोन अज्ञात आरोपी विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक माहिती अशी की, रश्मी नर-वडे (१९) व मैत्रीण दामिनी डोंगरे या दोन्ही तरुणी ९ ऑगस्ट रोजी सक ाळी साडेपाच वाजता नेहमी प्रमाणे पोलीस भरतीचा सराव करण्यासाठी चिकलठाणा एमआयडीसी भागात गेल्या होत्या. काही वेळ स- करण्यात आला आहे.

# नगर जिल्ह्यात बुधवारी ४८२ रूग्ण परतले घरी

अहमदनगर, ता. १२, (हिंदुस्थान समाचार) : जिल्ह्यात बुधवारी सकाळी ४८२ रूग्णांनी कोरोनावर मात करून ते घरी परतले आहेत.त्यामळे आतापर्यंत जिल्ह्यात बरे झालेल्या रूग्णांची संख्या ७७४५ इतकी झाली आ-हे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने दिली आहे. बुधवारी बरे झालेल्या रूग्णांमध्ये नगर शहरातील १८७ जमांसह संगमनेर २३, राहाता १४, पाथर्डी ३०, नगर तालुका २६, श्रीरामपूर ३७, कॅन्टोन्मेंट १३, नेवासा २३, श्रीगोंदा १५, पारनेर १८, अकोले ६, राहुरी ४, शेवगाव२५, कोपरगाव ३७, जामखेड ३, कर्जत १७ व मिलिटरी हॉस्पीटल मधील ४ डणांचा समावेश आहे.

# ऑगस्ट महिन्यात १२१ टक्के पाऊस

औरंगाबाद, ता. १२, (हिंदुस्थान समाचार) पाऊस वैजापूर तालुक्यात झाल्याची नोंद जिल्हा ः जून-जुलै या दोन महिन्यात तूफान वर्षाव करणाऱ्या 🛛 प्रशासनाने घेतली आहे. त्याखालोखाल फुलंब्री २१५ वरुण राजाने ऑगस्टमध्येही जिल्ह्यावर आभाळमाया टक्के औरंगाबाद व गंगापूर तालुक्यात २०६ टक्के, कायम ठेवली आहे. गेल्या अकरा दिवसात सरासरीच्या पैठण २०४, कन्नड १९२, खुलताबाद १८८, सोयगाव १२१ टक्के पाऊस जिल्ह्यात झाला. ऑगस्टमध्ये १४५ तर सिल्लोड तालुक्यात १३० टक्के पावसाची सर्वाधिक १७४ मिमी पाऊस खुलताबाद तालुक्यात नोंद झाली. संपूर्ण जिल्ह्यात सरासरीच्या तब्बल १८५ भरतला तर सर्वात कमी ९२ मिमी सिल्लोड तालुक्यात 🛛 टक्के पाऊस या दोन महिन्यात रिचवला. वरुणराजाने झाला आहे. एक दशकभरानंतर यंदा जिल्ह्यात पहिल्या ऑगस्ट महिन्यातही आभाळमाया कायम ठेवल्याचे दोन महिन्यातच पावसाने वार्षिक सरासरी ओलांडली. दिसते. गेल्या अकरा दिवसात जिल्ह्यात सरासरीच्या दरवर्षी जिल्ह्यातील जवळ्पास निम्मे तालुके अवर्षण १२१ टक्के पाऊस पडला आहे. सर्वाधिक १७४ टक्के ग्रस्त असतात. जून आणि जुलै महिन्यात किमान दोन पाऊस गंगापूर तालुक्यात झाला. त्याखालोखाल पैठण ते तीन आठवड्यांचे मोठे खंड ही पडत असत. या वर्षी १४६ टक्के, खुलताबाद १३९, वैजापूर १३६, फुलंब्री मात्र जून पासून सुरू झालेल्या पावसाने अजूनही उसंत १२४, कन्नड १२१, सोयगाव १०८, औरंगाबाद १०१ तर घेतलेली नाही. पावसाच्या दिवसात जवळपास ७० सिल्लोड तालुक्यात ९२ टक्के पावसाची नोंदझाली आ-टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वरुणराजाच्या कृपेने खरीप हे. १ जुलैपासून आतापर्यंत सर्वाधिक ७२९ मिमी पाऊस पिके जोमदार आली असून शेतकऱ्यांना आनंदाचे खुलताबाद तालुक्यात झाला आहे. त्याखालोखाल वातावरण आहे

जून-जुलैमध्ये १८५ टक्के दरम्यान जून आणि गंगापूर ५९०, पैठण ५७६, सोयगाव ५७२, वैजापूर जुलै महिन्यात जिल्ह्यात तब्बल सरासरीच्या १८५ ५४५, सिल्लोड तालुक्यात ४४० मिलिमीटर पावसाची टक्के पाऊस पडला होता. सर्वाधिक २३६ टक्के नोंद झाली आहे.

However, the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer an take an informed decision in their best interest. Based on the review of the Public Announcement (PA) dated May 8, 2020, the 12. Summary of reasons for recommendatior Detailed Public Statement (DPS) dated May 14, 2020, the Draft Letter of Offer (DLOF) dated May 22, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020 and Second Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the IDC Members are of the opinion that the Offer Price of INR 86/- offered by the Acquirer is ir accordance with the relevant regulations prescribed in the SEBI SAST Regulation and prima facie appear to be justified. 13 Details of Independent Advisors if any None 14. Any other matter(s) to be highlighted None To the best of our knowledge and belief, after making proper enguiry, the information contained in or accompanying this statement is, in al naterial respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the nformation required to be disclosed by the TC under the SEBI SAST Regulations. For and behalf of The Committee of Independent Directors of SeQuent Scientific Limited Dr. Gopakumar G. Nair Place: Thane Date: August 12, 2020 **Chairperson - Committee of Independent Directors** 

accordance with the provisions of the SEBI SAST Regulations.

#### **BOMBAY CYCLE & MOTOR AGENCY LIMITED** BOMBAY CYCLE & MOTOR ACENCY LTD Regd Office: 534, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Opera House, Mumbai - 400 007. CIN : L74999MH1919PLC000557 Tel.:022-23612195 / 96 / 97, Fax:022-23634527, e-mail: bcma@bcma.in, website:www.bcma.in ₹ in Lacs (Except for Per Share data) Extract of unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2020 Vear Ended

0.0		G	Year Ended		
SR. No	Particulars	30-06-2020	31-03-2020	30-06-2019	31-03-2020
NO		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (net)	48.00	195.37	212.47	848.62
2	Net Profit/(Loss) for the period				
	(before Tax and Exceptional items)	51.16	82.72	93.64	370.00
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax				
	(after Exceptional items)	51.16	82.72	93.64	370.00
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax				
	(after Exceptional items)	46.32	62.38	69.63	280.66
5	Total Comprehensive Income for the period				
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)				
	and Other Comprehensive Income after tax]	46.38	62.43	69.69	280.89
6	Equity Share Capital (Face Value or ₹ 10/- each)	40.00	40.00	20.00	40.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown				
	in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	1,938.40
8	Earning Per Share (of ₹ 10/- each)				
	(for continuing and discontinued operations)				
	(a) Basic :	11.58	15.60	17.41	70.17
	(b) Diluted :	11.58	15.60	17.41	70.17

#### Notes :

Place: Mumbai

Date: 12th August, 2020

औरंगाबाद ६८५ मिमी, फुलंब्री ६१७, कन्नड ६०८,

whether the offer is fair and reasonable

(1) In view of the lockdown across the country due to the COVID19 the operations of the restaurant Banquets and automobile service center have been affected temporarily in compliance with the directives orders issued by the relevant authorities. The Company has made assessment of adverse impact or economic environment in general and financial risk on account of COVID-19 on carrying value of its assets and operations of the Company. In assessing overall impact, the Company has considered internal and external information upto the date of approval of these financial results. During the period April-June, 2020, due to the lockdown there were substanitial reduction in operational revenue in hospitality and automobile division.

#### For BOMBAY CYCLE & MOTOR AGENCY LTD.

#### CHIRAG C. DOSH **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR**

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020 is filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website at www.bse.india.com and on the Company's website at www.bcma.in.

#### ("AVL" / TARGET COMPANY"/"TC") Registered Office: M-20, Aditya House, 1st, 2nd & 3rd Floor, Road No.26, S. K. Nagar, Patna- 800001, Bihar Phone No.: +91-612-2520874/54 | Email: cs@adityavision.in | Website: www.adityavision.in

गंक: १२ ऑगस्ट, २०२०

Date: Wednesday, August 12, 2020

This Advertisement is being issued by Guiness Corporate Advisors Private Limited, on behalf of Mr. Yashovardhan Sinha (Acquirer together with Ms. Sunita Sinha, Mr. Nishant Prabhakar, Ms. Rashi Vardhan, Ms. Yosham Vardhan and Yashovardhan Sinha HU together, the "PACs") in their capacity as a person acting in concerts with the Acquirer pursuant to regulation 18(7) of the Securitie and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 31,28,000 Equity Shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("**DPS**") pursuant to the Public Announcement ("**PA**") made by the Acquirer have appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Dailv) all editions and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) on Thursday, June 25, 2020. The Offer Price is ₹ 24/-(Rupees Twenty Four Only) per equity share is payable in cash ("**Offer Price**") Committee of Independent Directors ("IDC") of the Target Company is of the opinion that the Offer Price of ₹ 24/- (Rupees Twenty Four Only) offered by the Acquirer is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned newspapers on Wednesday, August 12, 2020. There has been no competitive bid to this Offer. The completion of dispatch of the Letter of Offer ("LOF") through electronic means to all the Public Shareholders of Target Company (holding Equity Shares in physical and/or dematerialised from) whose name appear on the register of members or the Identified Date and who have registered their email ids with the Depositories and/or the Target Company, was completed on August 07, 2020. Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Target Company www.adityavision.in; website of BSE Ltd www.bseindia.com, website of Registrar to the Offer www.cameoindia.com; website of Manager to the Offer, www.guinesscorporate.com. Further, in case of non receipt of LoF, the public bareholders holding equity shares may participate in the offer by providing their application in plain paper to their Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on July 09, 2020. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide Observation dated July 29, 2020 which have been incorporated in the LOF. Any other material change from the date of PA: Nil To the best of knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to the Offer. However, if any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to such other statutory approvals. 9. Public Shareholders are required to refer part 8 of the LoF (Procedure for Acceptance and Settlement) in relation to inter alia the procedure for tendering their equity shares in the open offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein 10. Schedule of Activities Sr. Activities Original Day and Date Revised Day and Date No Thursday, June 25, 2020 Thursday, June 25, 2020 1 Date of Public Announcement (PA) 2 Date of publication of the Detailed Public Statement (DPS) Thursday, July 02, 2020 Thursday, July 02, 2020 3 Filing of Draft Letter of Offer with SEBI Thursday, July 09, 2020 Thursday, July 09, 2020 4 Last date for SEBI observations on the Draft Letter of Offe Wednesday, July 29, (in the event SEBI has not sought clarifications or additiona Thursday, July 30, 2020 2020 information from the Manager to the Offer) Friday, July 31, 2020 5 Identified Date\* Monday, August 03, 2020 6 Date by which Letter of Offer (LoF) will be dispatched to the Shareholders whose name appear on the register of members or Monday, August 10, 2020 Friday, August 07, 2020 the Identified Date and who have registered their email ids with the Depositories and/or the Target Company Last date by which the committee of Independent Directors of the Thursday, August 13, Wednesday, August 12, 2020 Target Company shall give its recommendations 2020 8 Last date for upward revision of Offer Price and/or Offer Size Thursday, August 13, 2020 Friday, August 14, 2020 Thursday, August 13, 2020 9 Date of publication of Offer Opening Public Announcement Friday, August 14, 2020 10 Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) Monday, August 17, 2020 Friday, August 14, 2020 11 Date of Closing of Tendering Period (Offer Closing Date) Friday, August 28, 2020 Thursday, August 27, 2020 Thursday, September 12 Last Date for completion of all requirements including payment Friday, September 11, 10, 2020 of consideration 2020 \* Date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purposes of determining the Shareholders to whom the Letter of Offer sent(dispatch through electronic means). Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF **ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER** GUINESS CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED GUINESS 18, Deshapriya Park Road, Kolkata-700026, West Bengal, India | Tel. No.: 033-30015555 Email: gcapl@guinessgroup.net | Website: www.guinesscorporate.com Sd/-Contact Person: Ms. Alka Mishra | SEBI Registration No.: INM000011930 For and on behalf of the Acquirer and PAC Mr. Yashovardhan Sinha (Acquirei Ms. Sunita Sinhà (PAC 1 Mr. Nishant Prabhakar (PAC 2) Ms. Rashi Vardhan (PAC 3) Place: Kolkata Ms. Yosham Vardhan (PAC 4